

तुरंत रिलीज के लिए

## डिजिटल तौर पर – हर दरवाजे के पीछे की कहानी जानें!

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (21 सितम्बर, 2020) – शनिवार, 26 सितम्बर से शनिवार, 31 अक्टूबर तक, निवासी और आगंतुक (विजीटर), डिजिटल डोर्स ओपन (Digital Doors Open) के हिस्से के तौर पर ऑनलाइन, अपने खुद के घरों में आराम से, ब्रैम्पटन के इतिहास, विरासत और बेजोड़ सांस्कृतिक जगहों का अनुभव कर सकते हैं।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, इस वर्ष के विस्तृत डोर्स ओपन (Doors Open) के लिए एक ऑनलाइन हब (केंद्र) तैयार किया है। इसमें अब महीने भर के कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर, पूरे प्रांत में 20 से अधिक ऐतिहासिक और विरासत वाली जगहों और हमारे समुदाय में रुचि वाली जगहों के टूर, वीडियो और फोटो शामिल हैं। कार्यक्रम में इस वर्ष नई विशेषता में, ब्रैम्पटन के कलाकारों के साथ ऑनलाइन, हमारे समुदाय में सार्वजनिक कला (पब्लिक आर्ट) के बारे में जानें और ऑनलाइन भूतिया व विरासत के टूर देखें।

ब्रैम्पटन में हर नेबरहुड (पड़ोस) के पास सुनाने के लिए एक कहानी है। हमारे शहर के सार्वजनिक कला के स्मारक देखें, हमारी फायर और ट्रांज़िट फैसिलिटीज के बारे में जानें और एल्डर्ली एस्टेट (Alderlea Estate), ग्रेस यूनाइटेड चर्च (Grace United Church) और हिस्टोरिक बोवर्ड हाउस (Historic Bovaird House) सहित, हमारे समुदाय की सबसे पुरानी इमारतों का टूर करें। उन क्षेत्रों तक, जो जनता के लिए रोज़ाना नहीं खुलते हैं, पर्दे के पीछे की विशेष पहुंच के साथ, हमारे समुदाय में उन जगहों को देखें, जो पहले कभी नहीं देखीं।

पूरे अनुभव के लिए, [brampton.ca/doorsopen](http://brampton.ca/doorsopen) पर जाएं।

ओनटैरियो हेरिटेज ट्रस्ट (Ontario Heritage Trust), डोर्स ओपन ओनटैरियो (Doors Open Ontario) के लिए, अपनी सबसे अधिक बेजोड़ और आकर्षक सांस्कृतिक जगहों के डिजिटल दरवाजे, गेट और कोर्टयार्ड खोलने के लिए, पूरे ओनटैरियो के समुदायों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि आप इतिहास और अंदर की कहानियों की पड़ताल कर सकें।

अधिक जानकारी के लिए, [doorsopenontario.on.ca](http://doorsopenontario.on.ca) पर जाएं।

### हवाले

“इस वर्ष, डोर्स ओपन पूरा माह ऑनलाइन पेश किया जाएगा। यह हर किसी को ब्रैम्पटन में कई बेजोड़ दरवाजों के पीछे की कहानियां जानने का विस्तृत अवसर देगा। ब्रैम्पटन का संपन्न इतिहास और संस्कृति है। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अपने घर में ही आराम से बैठकर हमारी सबसे बेजोड़ और आकर्षक जगहों की पड़ताल करें, जो पहले कभी नहीं देखीं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“डोर्स ओपन इस वर्ष थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन यह ऐसा अनुभव होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ। पूरा माह, ब्रैम्पटन की कुछ सबसे दिलचस्प जगहों के टूर, वीडियो और फोटो के साथ हमारे ऑनलाइन हब पर जाना सुनिश्चित करें और कलाकारों की चर्चाओं और भूतिया व विरासत वाले टूर जरूर देखें।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वाईस 1 और 5, वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डेवलेपमेंट एंड कल्चर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“सिटी के स्टाफ ने, इस वर्ष के डिजिटल डोर्स ओपन ब्रैम्पटन कार्यक्रम के लिए एक शानदार ऑनलाइन हब तैयार किया है। यह हमारे शहर के इतिहास, विरासत और बेजोड़ सांस्कृतिक जगहों का जश्न मनाने के लिए समावेश वाले विजुअल्स से भरपूर है। यह ऐसा कार्यक्रम है, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहेंगे।!”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)